



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 23—मार्च 1, 2014, शनिवार/फाल्गुन 4—फाल्गुन 10, 1935
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 23—MARCH 1, 2014, SATURDAY/PHALGUNA 4—PHALGUNA 10, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2014

आ.अ. 12.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012 में स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में दर्शाए गए अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा न्यायोचित नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह घोषणा करता है कि नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, राज्य की विधान परिषद् अथवा विधान सभा अथवा संसद के दोनों सदनों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किए जाते हैं:—

सारणी				
क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एवं पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	144-रावपुरा	चौहान वरीशाली रहीमभाई, कल्याणनगर, हुसैनी चौक, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	जोशी हितेशकुमार सुधाकरभाई, भाईजी दारोगा पोल, जुबलीबाग के पीछे, रावपुरा, वडोदरा, गुजरात	-वही-

[सं. 76/गुज.-वि. स./2013]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA ORDER

New Delhi, the 7th February, 2014

O.N. 12.—Whereas the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2012 in the Gujarat State specified in column 2 and held from the Constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder ;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order : —

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons of Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2012	144-Raopura	Chauhan Varishali, Rahimbhai, Kalyannagar, Huseni Chowk, Karelibaug Vadodara, (Gujarat)	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Joshi Hiteshkumar Sudhakarbai, Bhaiji Daroga Pole, Behind Jubileebaug, Raopura Vadodara, (Gujarat)	-do-

[No. 76/GJ-LA/2013]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.